

To, The Listing Department, Bombay Stock Exchange, Mumbal Phirozeleejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai-400001

Date: 12/08/2023

Scrip Code:531334

SUB: Submission of newspaper publication of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2023

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper publication published i.e. on 12/08/2023 pursuant to Regulation 47 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

NAME OF NEWSPAPERS	D. 1975		
Florida Laboratoria	DAILD	LANGUAGE	EDITION
	12 <sup>th</sup> AUGUST, 2023	English	Lucknow
Jansatta	12th AUGUST, 2023	Hindi	
	7.020	rilliai	Lucknow

Please take the aforesaid on records.

Thanking You,

For Vikalp Securities Limited

ArunKejniwal Managing Director

DIN: 00687890

Regd. Office: 25/38, Karachi Khana, Kanpur - 208 001 Uttar Pradesh CIN: L65993UP1986PLC007727; Contact No.: 0512-2372665

E-mail Id : vikalpsecuritieslimited@gmail.com • Website : www.vikalpsecurities.com

FINANCIAL EXPRESS

## VIKALP SECURITIES LIMITED

Regd. Office: 25/38, KARACHI KHANA, KANPUR, UTTAR PRADESH - 208001 CIN - L65993UP1986PLC007727, Contact No: 0512-2372665

> Email id: vikalpsecuritieslimited@gmail.com Website: www.vikalpsecurities.com

EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30th JUNE, 2023

(Rs. In Lacs

					except EPS
S No			Year Ended		
		30.06.2023 (Unaudited)	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from Operations	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	-1.45	-0.19	-0.82	-0.40
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	-1.45	-0.19	-0.82	-0.40
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and and / or Extraordinary items)	-1.45	-0.19	-0.82	-0.40
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income(after Tax)]	1.10	-0.38	-0.91	-0.98
6	Equity share capital (Face Value of Rs.10/- each)	305.19	305.19	305.19	305.19
7	shown in the Audited Balance sheet of the Previous year	0.00	0.00	0.00	126.48
8	Basic and diluted EPS (Not Annulized) (Rs.)				
	Basic	-0.05	-0.01	-0.03	-0.01
	Diluted	-0.05	-0.01	-0.03	-0.01

**Note:** The above is an extract of the detailed format of quarter ended unaudited Financial Results of 30th June, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly ended Financial Results of 30th June, 2023 are available on the website of Bombay Stock Exchange Limited www.bseindia.com and on the website of the Company www.vikalpsecurities.com.

> For Vikalp Securities Limited Sd/-

Date: 11th August, 2023 Place: Kanpur

Arun Kejriwal **Managing Director** DIN: 00687890



Union Bank of India

Union Bank Bhawan, Ist floor, Vibhuti Khand, Near Mantri Awas, Gomti

**Possession** Notice

Whereas the undersigned being the authorized officer of Union Bank of India, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers onferred under Section 13(2) and 13(12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 200 issued a demand notice calling upon the following borrowers to repay the amount mentioned in the notice being

within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act 2002 read with rule 9 of the said

Nagar, Lucknow - 226010 Ph.: 0522 - 2306915, 2305900

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Union Bank of India for an amount of dues outstanding together with interest thereon with costs and charges. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset.

SI. No.	1)Name & Add. Of Borrower 2)Name & Add. Of Guarantor 3)Branch	Description of Mortgaged Property	Date of demand Notice/ date of possession (SYM/PHY)/ amount Due
1.	1)A. M/s Shubh Mangalam Industries, Address: Plot Number 17, 18, 19 and Part of Plot Number 20, Khasra Number 1834, Village- Juggaur, Satrikh Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 227105  1B. Mrs. Chanda Singh W/o Mr. Shekhar Singh (Partner in Account- M/s Shubh Mangalam Industries), Address: Plot Number 17, 18, 19 and Part of Plot Number 20, Khasra Number 1834, Village-Juggaur, Satrikh Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 227105  1C. Mr. Shekhar Singh S/o Mr. Chanda Kesh Singh (Partner in Account- M/s Shubh Mangalam Industries), Address: Plot Number 17, 18, 19 and Part of Plot Number 20, Khasra Number 1834, Village-Juggaur, Satrikh Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 227105  2) A. Mrs. Chanda Singh W/o Mr. Shekhar Singh (Guarantor in Account- M/s Shubh Mangalam Industries) Address: Plot Number 17, 18, 19 and Part of Plot Number 20, Khasra Number 1834,	2. Hypothecation of Stock And Book Debt. 3. Equitable Mortgage of Land and Building Situated on Part of Private Plot Number 17 & 18, Khasra Number 1834 Min Jumla, Village- Juggaur, Lucknow, Uttar Pradesh, Admeasuring 185.873 Sq Mtr, Property Owned By- Mrs. Chanda Singh W/o Mr. Shekhar Singh, Boundaries: East: Road 20.00 Feet Wide, West: Other's Plot, North: Part of Private Plot Number 18 Buyer, South: Road 20.00 Feet Wide. (As Per Sale Deed Number- 12912 Dated 20.08.2015) 4. Equitable Mortgage of Land and Building situated on part of Private Plot Number 19 & 20, Khasra Number 1834 Min Jumla, Village- Juggaur, Lucknow, Uttar Pradesh, Admeasuring 111.524 Sq Mtr, Property Owned By- Mrs. Chanda Singh W/o Mr. Shekhar Singh, Boundaries: East: Road 20.00 Feet Wide, West: Other's Plot, North: Part of Private Plot Number 20 Seller, South: Part	19.05.2023 (Symbolic) Rs. 84,51,201.99 Plus Interest At Contractual Rate From 01.05.2023 And Cost Minus Amount Paid If Any After The Date Of Demand Notice

Village- Juggaur, Satrikh Road, Lucknow, Sale Deed Number- 10681 Dated Uttar Pradesh-227105 13.07.2015) B. Mr. Shekhar Singh S/o Mr. Chanda 5. Equitable Mortgage of Land and Kesh Singh (Guarantor in Account- M/s Building situated on Part of Private Plot Shubh Mangalam Industries) Address: Number 18 & 19, Khasra Number 1834 Plot Number 17, 18, 19 and Part of Plot Min Jumla, Village- Juggaur, Lucknow, Number 20, Khasra Number 1834, Village- Uttar Pradesh, Admeasuring 167.286 Sq Juggaur, Satrikh Road, Lucknow, Uttar Mtr. Property Owned By- Mrs. Chanda Singh W/o Mr. Shekhar Singh Pradesh- 227105 Boundaries: East: Road 20.00 Feet 3) Vibhav Khand Branch

Email Ubin0570150@unionbankofindia.bank

Date - 12.08.2023, Place - Lucknow

Sale Deed Number- 9413 Dated Authorised Officer Union Bank of India

Reserve Price (RP

## बेक आफ डिएड्या Bank of India

S. No. Borrowers Name / O/s Amount/Branch

Zonal Office: "Star House"

Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Wide, West: Other's Plot, North: Private

Plot Number 20 Seller, South: Part of

Private Plot Number 18 Buyer. (As Per

Description of Vehicle

#### Ph. 0522-2721512 SALE NOTICE FOR SALE OF MOVABLE PROPERTIES

19.06.2015)

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described (Movable Property/ies) mortgaged/hypothecated / pledged/charged to the Bank of India. The Physical Possession of which has been taken by the Authorized Officer of Bank of India (Secured Creditor), will be sold on "As is where is", "as is what is" and Whatever there is" basis.

The last date for submission of EMD/Documents is 31.08.2023, 04:00 PM Date and Time of E-Auction 01.09.2023, (11:00 AM to 03:00 PM)

La Callanda	The state of the s		IEMUI.
1.	Niteesh Vishwkarma ₹ 2.60 Lakhs + Int. & Other Charges w.e.f. 28.08.2022 Branch: Gosaiganj	Make- Maruti Suzuki India, Model- Alto VXI Reg. No. UP-32-LL-7259, Regd. Dt. 30.04.2020, Chasis No. MA3EUA61S00F40811, Engine No. F8DN6292109	₹ 1.76 Lakhs ₹ 0.18 Lakhs
2.	Suraj Kumar † 4.96 Lakhs + Int. & Other Charges w.e.f. 28.08.2022 Branch: Gosaiganj	Make-Hyundai Motor, Model-Aura 1.2 MT Kappa -S, Regd. No.: UP-32-LU-1296, Regd. Dt. 10.12.2020, Chasis No. MALB241CLLM039230, Engine No. G4LALM703615	₹ 2.84 Lakhs ₹ 0.29 Lakhs
3.	Salma Bano ₹ 5.89 Lakhs + Int. & Other Charges w.e.f. 29.12.2020 Branch: Indira Nagar	Make-Ford India Pvt. Ltd., Model-Figo Aspire 1.5 TDCI (Diesel) Regd. No.: UP-32-JX-0577, Regd. Dt. 13.06.2018, Chasis No. MAJZXXMTKZHJ58808, Engine No. HJ58808	₹ 1.10 Lakhs ₹ 0.11 Lakhs
4.	Salma Bano ₹ 8.36 Lakhs + Int. & Other Charges w.e.f. 29.12.2020 Branch: Indira Nagar	Make- Honda Cars India Ltd., Model- Amaze 1.5 E(O) MT I -DTEC, Regd. No.: UP-32-JN-8777, Regd. Dt. 12.01.2018, Chasis No. MAKDF25SLHN201859, Engine No. N15A14016835	₹ 0.15 Lakhs
5.	Neeraj Srivastava ₹ 4.41 Lakhs + Int. & Other Charges w.e.f. 30.09.2016 Branch: Arjun Ganj	Make- TATA, Model- INDIGO ECS - LX , Regd. No. UP-32-FW-6278, Regd. Dt. 13.11.2014, Chasis No. MAT601469EPJ23936, Engine No. 14CRAIL08JVYW08915	# 0.13 Lakhs
6.	Jagjeevan Prasad ₹ 11.97 Lakhs + Int. & Other Charges w.e.f. 13.09.2022 Branch: Indira Nagar	Make- ISUZU MOTOR, Model-MU-7 (AT) Regd. No. UP-32-HM-8888, Regd. Dt. 26.12.2016, Chasis No. MA7UCR854GC400804, Engine No. NN2864	₹ 0.80 Lakhs
4 6	or detailed terms and conditions of cale, a	lease refer to the link provided in https://www.han	kofindia in/o

 For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided in https://www.bankofindia.in/eauction.htm and https://ibapi.in. Website of the E-Auction Service Providerhttps://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi. Also, prospective bidders may contact the Authorized Officer on the above given Tel. No., 2. The properties/assets will be sold on "As is where is, What is and Whatever there is basis" 3. The successful bidder will have to bear the cost/fees payable as per rules like stamp duty, registration fee etc. 4. The authorized officer will not be liable for any kind of tax or other dues on the goods sold. 5. The Authorized Officer has the absolute right to accept or reject any bid and adjourn/postpone the same without assigning any reason thereof. 6. Interested parties can inspect the vehicle between 11 am to 2 pm on all working days till 31.08.2023 with permission from the authorized officer, Bank of India. For any other kind of information contact the Authorized Officer, Bank of India Asset Recovery Department, "Star House" Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow. 7. The purchaser will have to pick/take the vehicle from the bank's premises within 15 days from the date of depositing the full amount, otherwise rent will be charged at the rate of Rs.500/- per day. 8. All other expenses including statutory dues/insurance/Vehicle transfer/registration related work at the RTO office is to be undertaken by the successful bidder. 9. This Publication is also 15 days notice to the borrower/Mortgagor/Guarantor of the above loan account about holding of sale on above mentioned date if the outstanding dues are not paid in full.

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE The borrower/guarantor are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of e-Auction, failing which the property/Vehicle will be auctioned/sold and balance dues, if any, will be recovered with interest and cost

Authorised Officer, Bank of India

Senior Divisional Commercial Manager/Freight, Delhi Division, Northern Railway, in terms of Railway Board letter no. 2022/TC(FM)/ 10/04 dated 13.06.2022. nvites bids through e-Auction (www.ireps.gov.in) for leasing of parcel space of SLR compartments and Parcel Vans (on round trip basis) for a period of two years as per detail and schedule given below:-

S. No.	Date & time of e-Auction	Assets to be auctioned
1	16.08.2023 at 10:30 am	12191 (F1 & F2), 12524 (F1), 12558 (F1), 12818 (F1), 12918 (F1), 14316(F1), 15035 (F1 & R1), 22463 (F1), 22466 (F1), 22485 (F1)
2	17.08.2023 at 10:30 am	12191 (R1), 12457 (F1, F2 & R1), 12646 (R1), 12826 (F1) 13430 (F2),14507 (F1, F2 & R1), 19338 (F1), 20914 (F1, F2 & R1), 20946 (F1), 22429 (F1)
3	18.08.2023 at 10:30 am	12036 (FI), 12066 (F1), 12392 (F1), 12428 (F1), 12816 (F1), 12952 (F1), 14011 (F1 & R1), 14731 (F1 & R1), 15060 (F1 & R1), 20409 (F1), 20473 (F1 & R1), 22168 (F1 & F2), 22950 (F1), 22986 (F1)
4	19.08.2023 at 10:30 am	12005 (F1), 12038 (F1), 12148 (R1), 12282 (F1); 12481 (F1, F2 & R1), 12646 (F1 & F2), 12802 (F1), 14206 (F1), 14316 (R1), 14812 (F1), 22421 (F1, F2 & R1), 22438 (F1), 22482 (F1, F2 & R1)
5	21.08.2023 at 10:30 am	01 LVPH (24 tonnes) on round trip basis in each train - 12226/12225,12236/12235,12264/12263,12284/12283, 12425/12426,12432/12431,12438/12437,12442/12441,12445,12446,12454/12453,12488/12487,14033/14034,20408/20407, 22412/22411, 22420/22419, 22428/22427, 22429/22430, 22434/22433, 22460/22459 & 01 VP (23 tonnes) on round trip basis in train number: 22418/22417
6	22.08.2023 at 10:30 am	12034 (F1), 12060 (F1), 12284 (F1), 12958 (F1), 14303 (F1 & R1), 14305 (F1 & R1), 14331 (F1, F2 & R1), 14545 (F1, F2 & R1), 20488 (F1, F2 & R1), 22418 (R1), 22654 (F1)
7	23.08.2023 at 10:30 am	12011 (F1), 12017 (F1), 12029 (F1), 12040 (F1), 12148 (F1 & F2), 12432 (F1), 12455 (F1), 12644 (F1, F2 & R1), 14004 (F1), 14041 (F1), 14208 (F1), 14553 (F2), 22454 (F1, F2 & R1)
8	24.08.2023 at 10:30 am	04304 (FI, F2 & R1), 12013 (F1), 12015 (F1), 12031 (F1), 12448 (F1), 12459 (F1), 12986 (F1), 13258 (F1), 15280 (F1), 22210 (F1), 22414 (F1), 22472 (F1, F2 & R1)
9	25.08.2023 at 10:30 am	12045 (F1), 12963 (F1), 14152 (F1), 14164 (F1, F2 & R1), 14681 (F1), 20938 (F1 & R1), 22401 (F1)
10	26.08.2023 at 10:30 am	12265 (F1), 12444 (F1), 12463 (F1), 12584 (F1), 13430 (F1), 14014 (F1), 14035 (F1, F2 & R1), 14212 (F1), 14521 (F1, F2 & R1),14553 (R1), 22412 (F1), 22806 (F1)

mportant notes: For more information, requirement and various aspects regarding these e-Auctions. interested bidders are advised to visit https://www.ireps.gov.in/html/helpdesk/ learning centre.html. (E-Auction leasing section). Earnest Money Deposit (EMD): 5% of the total contractual bid value to be deposited online during the auction. EMD of the successful bidder will be retained as Security Deposit.

Railway Administration reserves the full and absolute rights to short terminate these contracts at any point of time and/or for taking any decision regarding the discontinuation/continuation of these contracts with modified/additional terms and conditions depending upon the continuation/discontinuation of these trains or commencement of new train services. 2508/23

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE



#### **MODERN DAIRIES LIMITED** CIN: L74899HR1992PLC032998

Corporate Office: SCO 98-99, Sub City Centre, Sector 34, Chandigarh-160022 DATRIES Registered Office & Works: 136 KM, G.T. Road, Karnal (Haryana)-132001

> Extract of Unaudited Financial Results ( Reviewed) for the Quarter Ended 30.06.2023 ₹ In lacs except EPS

Particulars (Refer Notes below)	Quarter ended 30" June, 2023	Corresponding 3 months ended on 30th June, 2022	Previous year ended 31st March 2023
	(Unaudited)	(Unaudited)	Audited
Total income from operations (net)	8314.69	4437.34	21,875.84
Profit from ordinary activities after tax	202.29	265.14	1,215.61
Profit for the period after tax (after Extraordinary items)	202.29	265.14	1,215.61
Equity Share Capital	2335.89	2335.89	2,335.89
Earning per share (for continuing operations) (of ₹ 10 each)	((*)	9	
(a) Basic	0.87	1.14	5.21
(b) Diluted	0.87	1.14	5.21
Earning per share (for continuing and discontinued operations) (of ₹ 10 each)	(1) <u>2</u> 55	22	9
(a) Basic	0.87	1,14	5.21
(b) Diluted	0.87	1.14	5.21

Notes: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on the stock exchange website (www.bseindia.com)

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Chandigarh Date: 11th August, 2023

A.K. Aggarwal (Executive Director) (DIN: 00486430)

# Possession Notice (For Immovable Property) Rule 8-(1)

(IIFL-HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower/Co-Borrowers mentioned herein below to repay the amount, notice is hereby given t the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned no to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IIFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon."The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, If the borrower clears the due: of the "IIFL HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets Description of the Secured Asset (Immovable Property) Total Outstanding | Date of Date of All that piece and parcel of :House Cum Plot No. 67Min-68Min, Land Area Dues (Rs.) **Demand Posse** Co-Borrower(s) | 450 Sq. Ft., Carpet Area 729 Sq. Ft., Built-Up Area 405 Sq. Ft., Supe Notice ssion Rs.11,76,366/- (Rupees Mr. Mohammad Built-Up Area 515 Sq. Ft., Situated In Kunj Vihar Near Tarsem Colony Eleven Lakh Seventy Six Irfan, Afsana Bibi Ludhiana And Comprised Of Khata No. 752/803 Khasra No. 28//22/2-23 29-May Thousand Three Hundred As Entered In The Jamabandi Of Village JassianHadbast No. 101 Tehsi and Sixty Six Only) And District Ludhiana, Puniab, India-141001. All that piece and parcel of : Plot No - 159, admeasuring 600 Sq. Ft., Khasra 09-Dec Mrs.Pooja (Prospect no. 15//23-20//3-15//22/1-15//22/2-20//2/1- 20//9/1-20//2/2, Abadi, Shree Lakh Seventy One Thousand

No IL10142776) Krishna Enclay, Wakia Village Jassia, Ludhiana, Punjab, India-141001 f the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 3(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For, further details pleas contact to Authorised Officer at Branch Office: SCO 21, 5th Floor,Ludhiana Ferozgandhi Market, Ludhiana, Punjab-141001/ Corporate Office: IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana.

Place: Puniab, Date: 12-08-2023 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd

SONATA FINANCE

#### SONATA FINANCE PRIVATE LIMITED Regd. Office: II Floor, C.P-1, P.G. Tower, Kursi Road,

Vikas Nagar, Lucknow – 226026

CIN: U65921UP1995PTC035286 PH No.- 0522-2334900 FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023 Regulation 52(8) read with Regulation 52(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015

				(UNR in lakhs)
S.No.	Particulars .	Quarter ended June 30, 2023 (Unaudited)	Quarter ended June 30, 2022 (Unaudited)	Previous Year ender March 31, 2023 (Audited)
1	Total Income from Operations and Other Income	14,774.20	8,582.55	40,499.04
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3,018.71	363.55	5,545,07
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,018.71	363.55	5,545.07
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,155.80	271.26	4,156.26
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,153.62	264.02	4,144.83
6	Paid up Equity Share Capital	2,616.77	2,601.28	2,616.77
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	33,695.07	27,575.73	31,541.44
8	Securities Premium Account	21,011.74	20,866.72	21,011.73
9	Net Worth	36,311.84	30,177.00	34,158.21
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	202,313.13	135,935.31	203,230.63
11	Debt Equity Ratio	5.57	4.50	5.95
12	Earnings Per Share (of Rs. 10 each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic:	8.24	1.04	15.94
	2. Oiluted:	8.15	1.03	15.77
13	Net Profit margin (%)	15.08%	3.22%	10.42%
14	Sector Specific equivalent ratios, as applicable:			
	a. Gross Non Performing Asset ('GNPA') (in %)	2.27%	3.64%	2.72%
	b. Net Non-Performing Asset ('NNPA') (in %)	0.68%	1.35%	0.91%
	c. Provision Coverage Hatio (In%)	70.32%	63.84%	67.02%
	d. CRAR	15.82%	20.21%	16.55%
	e. Total Debt to Total Assets	83 55%	80.47%	84 50%

(a) The above is an extract of the detailed format of unaudited quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited quarterly financial results is available on the website of the Stock Exchange i.e; www.bseindia.com and the website of the Company i.e. www.sonataindia.com b) Except the ratios mentioned above, the other line items referred to in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are not applicable to the company owing to the nature of business of the

(c) The financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting standard (IndAS) as per the Companies (Indian Accounting standards) Rules, 2015 (as amended from time to time) and notified under section 133 of the Companies Act. 2013 ("the Act") Figures for the previous periods have been regrouped / rearranged whenever considered necessary to confirm to the current

Date: August 10, 2023 Place: Lucknow

period presentation.

Note:

(Managing Director) DIN: 00173413

For Sonata Finance Private Limited



NORTHERN RAILWAY

पत्र संख्या P-10572 यू0पीएफ0/

Tender Notice NO. 42/2023-2024 Dated: 11/08/2023 Principal Chief Materials Manager, Northern Railway, New Delhi - 110001, for and on behalf of the President of India, invites e-tenders through e-procurement system for supply of the following items:-

No.	Brief Description	Qty.	Date
09232082	COUPLER ROD	5169 NOS	04.09.23
19230864	SET OF CYLINDRICAL ROLLER BEARING	78 NOS	07.09.23
09232567	KIT FOR CONSTANT	4479 SET	11.09.23
09232418	SIDE FRAME FRICTION LINER	2428 SET	11.09.23
16230664	BEARING ASSLY ROLLER	190 SET	12.09.23
07233461A	YAW DAMPER FOR LHB COACHES	7923 NOS	18.09.23
	No. 09232082 19230864 09232567 09232418 16230664	No.  09232082 COUPLER ROD  19230864 SET OF CYLINDRICAL ROLLER BEARING  09232567 KITFOR CONSTANT  09232418 SIDE FRAME FRICTION LINER	No.         COUPLER ROD         5169 NOS           19230864         SET OF CYLINDRICAL ROLLER 78 NOS BEARING           09232567         KIT FOR CONSTANT         4479 SET           09232418         SIDE FRAME FRICTION LINER         2428 SET           16230664         BEARING ASSLY ROLLER         190 SET

Note-1. Vendors may visit the IREPS website i.e. www.ireps.gov.in for details No Manual offer will be entertained.

2499/23

Azadi<sub>ka</sub> Amri Mahotsa



Office of the Principal Chief Materials Manager, Northern Railway intends to sell

Basti, Delhi (Between 10:00 hrs to 16:00 hrs), mobile no. 9717630769 for getting details of machines, E-mail id:-dycmmpnsssb@nr.railnet.gov.in Note: (1) This notice of inviting of Expression of Interest should not be construed as notice for tender for sale. (2) Kindly take prior appointment on mobile from the above

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE



CIN: L27109PB1973PLC003358 Corporate Office: SCO 98-99, Sub City Centre, Sector 34, Chandigarh-160022 Registered Office: G.T. Road, Mandi Gobindgarh (Punjab)-147301

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30.06.2023

₹ in Lacs except EPS Quarter ended 30th June, 2023 on 30th June, 2022 Unaudited Unaudited Audited 2 18 (18)(35)1,889 (35)(18)1.383 (18)(35)1,383

Total income from operations(net) Profit/Net loss before Exceptional items Profit/Net loss from ordinary activities before tax Profit/Net Loss for the period from continuing operations after tax Equity Share Capital 1,440 1.440 1.440 Reserve (excluding Revaluation Reserves as shown in balance (158)sheet of previous year) Profit/(Loss) per share (for continuing operations) (of ₹ 10 each) (0.26)(0.13)10.05 (0.26)(0.13)10.05 Profit/(Loss) per share (for continuing and discontinued operations) (of ₹ 10 each) (a) Basic (0.26)(0.13)10.05 (b) Diluted (0.26)(0.13)Notes: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial

Results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on the stock exchange website (www.bseindia.com) For and on behalf of Board of Directors

Place: Chandigarh

Date: 11th August, 2023

Regd. Office: P.O. Mohanlalganj, Distt., Lucknow-226301 CIN: L26942UP1973PLC003743 Web: www.upal.in, E-mail: upasbestos@upasbestos.com, Tel.: +91 7897885557/58

(Rs. in Lacs) Quarter Year Quarter **Particulars** ended Ended ended No. 30.06.2023 30.06.2022 31.03.2023 (Unaudited) (Unaudited) (Audited) Total Income from Operations 6,439 4,068 20,481 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, 185 206 602 Exceptional and/or Extraordinary items#) 185 206 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after 602 Exceptional and/or Extraordinary items#) 162 168 445 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) 162 168 438 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /(Loss) for the Period (after Tax) and other Comprehensive Income (after Tax)] Paid Up Equity Share Capital 912 912 912 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 5,387 4,948 5,225 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) 4.89 1.78 1.84

Note: (A) The above results were reviewed by Audit Committee and approved by Board of Directors at their respective meetings held on 11th August 2023. (B) The above is an extract of the detailed Financial Results for the quarter ended 30" June, 2023, filed with Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (LODR) Guidelines 2015. The full format is available on Company Website www.upal.in. (C) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules. (D) Previous year figures have been regrouped/restated where

Date: 11.08.2023

Lucknow

Ref:-Tender Notice No. 40/2023-2024 Dated: 04.08.2023

NORTHERN RAILWAY

(I) Tender No. 09232539 due on 11.09.2023 In reference to above tender, Tender Opening Date has been revised now due on 28.08.2023. All other terms and conditions remain unchanged.

The corrigendum has been published on website www.ireps.gov.in SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

J.P. COOPERATIVE SUGAR FACTORIES FEDERATION LTD 9-A, RANA PRATAP MARG, LUCKNOW-226001

Tel No. (0522) 2612949, (0522) 2628310, Fax: (0522) 2627994

Email: upsugarfed@yahoo.co.in | Website: www.upsugarfed.org

Tender Notice

On line e-tenders are invited from manufacturers / Authorised dealer/Authorised distributor for Mill bearing Aluminium complex grease & manufacturers/Authorised

dealer/Sole selling agent for Computer stationery ( as per details given in tender documents) to various Cooperative Sugar Factories of U.P., The e-tender documents with detailed specifications, terms and conditions etc. can be downloaded from etender portal http://etender.up.nic.in & federation website www.upsugarfed.org .

The Managing Director Federation reserves the right to cancel any or all bids/annul e-bidding process without assigning any reason & decision of Federation (RAMAKANT PANDEY) MANAGING DIRECTOR

Invitation of Tenders through E-Procurement system.

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

**NORTHERN RAILWAY** EXPRESSION OF INTEREST

the following Printing and allied machines in good working condition on as-iswhere-is-basis:-

S.N. Description		No. of M /Cs	
1.	9 Color Web offset Rotatek Ticket Printing Machine with online numbering, rewinder, sheeter, perforator and slitting units along with 4 spooling machines and 01 Collator.	1	
2.	Multipurpose web offset machine with 04 perfecting offset units, one side printing polymer unit, online numbering, sheeter and folder; reel size:-61 cm, make:-Sud & Waren, Faridabad.	1	
3.	04 Unit perfector web offset machine with online numbering, folder and sheeter; size:-61 cm, make:- Sud & Waren, Faridabad.	1	
4.	Single unit sheet fed machine; size:-61 cm x 86 cm, make:-HMT SOM 136	1	
5.	Single unit mini offset sheet fed machine; size:-A3, make:- Swift	1	
6.	Offset Plate Exposure Controller & Offset plate Processor; size:-A1	2	
7.	Polymer Plate Exposure Unit; size:-A2	1	
8.	Washout Unit for Polymer Plate; size:-A2	1	
9.	Dark Room Contact Printer for Polymer Plate	1	
10.	Six Clamp perfect binding machine	1	
11.	Stitching machine	4	
12.	Shrink Wrapping	2	
	Knife Sharpening Machine for printing and binding machines	1	

mentioned officer.

MODERN STEELS LIMITED

Corresponding Previous year ended Particulars 3 months ended 31st March, 2023 (Refer Notes below)

Satish Kumar Kapoor Director

DIN: 00009122

U.P. ASBESTOS LIMITED Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30/06/2023

Basic and Diluted \*not annualized

necessary. By order of the Board Place: Lucknow Managing Director

financialexp.epap.in

Date: 11.08.2023

Place : Lucknow

कानपुर वाराणसी गाजियाबाद झांसी तापमान

# दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत

म्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न सूची के अनुसार ऋणी का खाता एन.पी.ए. होने के कारण निम्न तालिका के अनुसार गौठन और प्रतिभूति हित्र प्रवर्तन अधिनियम 2002 " की बारा 15( 2 ) के अनुगौत 60 दिन का नोटिस दिया गया था ागीटस के अनुसार यदि ऋणी, गारण्टर 60 दिवर

09 अगस्त 2023

₹ 492801/- व

₹ 2947663/-07 अगस्त 2023

09 अगस्त 2023

₹ 1320420/-

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का प्राधिकृत अधिकारी होते हुये वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और धारा 13(2) तथा 13 (12) और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की सपठित नियम 9 के तहत प्रवत्त

शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना जारी की थी तथा ऋणी को मांग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है, का भुगता

ूरणी के द्वारा यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/जमानतदार और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का **सांकेतिक** 

ऋणगृहिता को विशिष्ट रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी

जाती है और नीचे वर्णित सम्पत्ति का किसी प्रकार से कोई क्रय—विक्रय यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का बकाया धनराशि, ब्याज एवं अन्य व्यय के भार के अधीन होगा। अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधान के अनुसार ऋणी को अवगत कराया जाता है कि दिये गये समय के अन्तर्गत

बंधक सम्पत्ति

का विवरण

स्वामित्व में भूमि व भवन का साम्यिक बंधक स्थित

निजी प्लॉट संख्या 17 एवं 18 का भाग, खसरा

संख्या 1834 मिनजुमला, ग्राम–जुग्गौर, लखनऊ,

चौहद्दीः पूर्वः सड़क 20.00 फीट चौड़ी, पश्चिमः

अन्य का प्लॉट, **उत्तरः** निजी प्लॉट संख्या 18 क्रेता

का भाग, दक्षिणः सडक 20.00 फीट चौडी। (सेल

4. श्रीमती चंदा सिंह पत्नी श्री शेखर सिंह व

स्वामित्व में भूमि व भवन का साम्यिक बंधक स्थित

निजी प्लॉट संख्या 19 एवं 20 का भाग, खसरा

संख्या 1834 मिनजुमला, ग्राम–जुग्गौर, लखनऊ

उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 111.524 वर्ग मीटर

चौहद्दीः पूर्वः सड़क 20.00 फीट चौड़ी, पश्चिमः

अन्य का प्लॉट, **उत्तरः** निजी प्लॉट संख्या 20

विक्रेता का भाग, दक्षिणः निजी प्लॉट संख्या 18

क्रेता का भाग। (सेल डीड संख्या-10681 दिनांव

स्वामित्व में भूमि व भवन का साम्यिक बंधक स्थित

संख्या 1834 मिनजुमला, ग्राम-जुग्गौर, लखनऊ

उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 167.286 वर्ग मीटर,

चौहद्दीः पूर्वः सड़क 20.00 फीट चौड़ी, पश्चिमः

अन्य का प्लॉट, उत्तरः निजी प्लॉट संख्या 20

विक्रेता, **दक्षिणः** निजी प्लॉट संख्या 18 क्रेता का

भाग। (सेल डीड संख्या-9413 दिनांक

दिनांक 12.08.2023

सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने को कहा था।

. ऋणी का नाम एवं पता . जमानतकर्ता का नाम एवं पता

1बी. श्रीमती चंदा सिंह पत्नी श्री शेखर सिंह

(खाते में पार्टनर— मेसर्स शुभ मंगलम

संख्या 20 का भाग, खसरा संख्या 1834, ग्राम-

जुग्गौर, सतरिख रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–

इंडस्ट्रीज), पताः प्लॉट संख्या 17, 18, 19 एवं प्लॉट

संख्या २० का भाग, खसरा संख्या 1834, ग्राम—

जुग्गौर, सतरिख रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–

2)ए. श्रीमती चंदा सिंह पत्नी श्री शेखर सिंह

(खाते में जमानतकर्ता— मेसर्स शुभ मंगलम

इंडस्ट्रीज) पताः प्लॉट संख्या 17, 18, 19 एवं प्लॉट

संख्या २० का भाग, खसरा संख्या 1834, ग्राम—

जुग्गौर, सतरिख रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-

संख्या 20 का भाग, खसरा संख्या 1834, ग्राम-

जुग्गौर, सतरिख रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–

Ubin0570150@unionbankofindia.bank

(खाते में पार्टनर— मेसर्स शुभ मंगलम अनुसार)

लखनऊ, उत्तर प्रदेश— 227105

227105

227105

ईमेलः

No.

1 Total Inco

Net Prof Exception 3 Net Profit

Exception 4 Net Profit Exceptiona

8 Basic and diluted EPS (Not Annulized) (Rs.)

5 Total Co

6 Equity sha

Diluted

3)विभव खण्ड शाखा

भुगतान करके बंधक आस्ति को मुक्त करा लें। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

1\_1)ए. मेसर्स शुभ मंगलम इंडस्ट्रीज, पताः प्लॉट 1. प्लान्ट व मशीनरी का दृष्टिबंधक

संख्या 17, 18, 19 एवं प्लॉट संख्या 20 का भाग, 2. स्टॉक एवं बुक डेब्ट का दृष्टिबंधक

खसरा संख्या 1834, ग्राम— जुग्गौर, सतरिख रोड, 3. श्रीमती चंदा सिंह पत्नी श्री शेखर सिंह वे

इंडस्ट्रीज), पताः प्लॉट संख्या १७, १८, १९ एवं प्लॉट उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल १८५.८७३ वर्ग मीटर,

1सी. श्री शेखर सिंह पुत्र श्री चंदा केश सिंह डीड संख्या—12912 दिनांक 20.08.2015 वे

बी. श्री शेखर सिंह पुत्र श्री चंदा केश सिंह 5. श्रीमती चंदा सिंह पत्नी श्री शेखर सिंह वें (खाते में जमानतकर्ता— मेसर्स शुभ मंगलम

(खात म जनानावर्थका । १८०० कुलाट स्थानाच न जूर न जना । १९०० का भाग, खसर

सहारनपुर, ११ अगस्त (जनसत्ता)।

♦
Acyas

रूपेश कुमार गुप्ता, श्रीमती रश्मि गुप्ता खाता सं. LNKPR02120-210170316 &

ब्रजेश कुमार यादव, श्रीमती शशि यादव

षाता सं. LNKPR02221-220195576

LNKPR10220-210175360

सहारनपर जिले के गंगोह थाना इलाके में बाईपास रोड पर नगरपालिका द्वारा बनाए जाने वाले नाले की खुदाई के दौरान पास के मकान की दीवार गिर जाने से शुक्रवार को एक मजदूर की मौत हो गई जबिक चार अन्य घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सागर जैन ने बताया कि गंगोह नगरपालिका द्वारा बाईपास रोड से पदम सिनेमा मार्ग पर नाले की खुदाई का कार्य

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

गहरी खुदाई होने के कारण पास के एक गोदाम की दीवार अचानक भरभराकर नीचे गिर पड़ी, जिससे नाले की खुदाई कर रहे पांच मजदुर इसकी चपेट में आ गए। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल मजदूरों को तूरंत ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान एक श्रमिक नौशाद (28) की मौत हो गई।

अन्य घायलों एजाज, कल्लू, अनुज, इस्लाम व मुजम्मिल को सीएचसी भिजवाया गया।

आराजी नं. 328 सीएचए, नेटवा सिकंदरपुर, सिरोसी,

अंबिकापुरम, शुक्लागंज, उन्नाव, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 83.64

मकान नं. 5/155, आवास विकास योजना-3, अम्बेडकर

पुरम, कल्याणपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 40.74

वर्ग मीटर

प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

अधिग्रहण

देय सूचना /अधिग्रहण की

तिथि /सांकेतिक / भौतिक

बकाया घनराशि

19.05.2023

10.08.2023

₹. 84,51,201.99

दिनांक **01.05.2023** से

संविदात्मक दर से ब्याज

एवं अन्य व्यय, राशि यदि मांग सूचना के बाद कोई भुगतान किया गया हो तो उसे घटाते हुए

# ट्रक से रोडवेज बस में टक्कर, चार की जान गई

बुलंदशहर, 11 अगस्त (जनसत्ता)।

जिले के कोतवाली देहात इलाके के तहत शुक्रवार दोपहर ट्रक ने रोडवेज बस में टक्कर मार दी। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और नौ लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना का जायजा लिया और घायल लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया।

शुक्रवार को साहिबाबाद डिपो की बस बदायूं से दिल्ली जा रही थी। बुलंदशहर से थोड़ा आगे निकलने पर अडौली तिराहे पर दिल्ली की तरफ से आ रहे ट्रक से टकराकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर जिला अधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने तत्काल मौके पर पहुचंकर दुर्घटना का जायजा लिया तथा दुर्घटना में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। इसके बाद जिला अधिकारी ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों को दिए जा रहे इलाज के बारे में जानकारी ली। साथ ही घायलों से वार्ता कर जानकारी लेकर उन्हें समुचित उपचार दिलाए जाने के लिए आश्वस्त किया।

## अनियंत्रित होकर कार पलटी, दो की मौत

उन्नाव, ११ अगस्त (जनसत्ता)।

जिले के मौरावां-मोहनलालगंज मार्ग पर कदरा गांव के पास शक्रवार सबह करीब पांच बजे लखनऊ की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में चली गई। रफ्तार तेज होने के कारण कार के परखच्चे उड गए। घटना में मोहित उर्फ छोट और विपिन यादव की घटनास्थल पर मौत हो गई। तथा अन्य घायल हो गए। दुर्घटना के समय कार विपिन चला रहा था। घटना की सूचना पर मौरावां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को एंबुलेंस से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां डाक्टर ने विपिन यादव और मोहित को मृत घोषित कर दिया। जबकि साथ में बैठे तीन अन्य मित्रों को लखनऊ ट्रामा सेंटर स्थानांतरित कर दिया।

## अवैध खनन में लगे पाच वाहन जब्त

हापुड़ 11 अगस्त (जनसत्ता)

पांच खनन माफियाओं को गिरफ्तार कर उसके पास से अवैध खनन में लगे नौ वाहन को जब्त किया है।

प्रशासन के इस कार्यवाही से जनपद में अवैध खनन कर रहे माफियाओं में हडकंप मच गया है। उपजिलाधिकारी अंकित कमार वर्मा ने बताया कि उन्हें लगातार अवैध खनन किए जाने की शिकायतें मिल रही थी। जिस पर देर रात छापामारी कर अवैध मिट्टी खनन करती एक जेसीबी, चार मिट्टी से भरे ट्रैक्टर-ट्राली, दो राख के डंपर, दो ट्रक मिट्टी भरे पकड़े गए। पकड़े गए वाहनों को सिंभावली थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

दक्षिण रेलवे					
	निविदा सूचना सं.: ई-	15/2023	का शुद्धिपत्र	0	
क्रम सं. मद क्रमांक निविदा संख्या तय तिथि					
1 10 44230623 10.0		10.08.2023			
विवरण	वर्तमान		इर	न प्रकार पढ़ें	
टॉप साइड बिअरर लाइनर के लिये दर अनुबंध	<b>शुरुआत</b> : अनुबंध के नि 3 माह के भीतर, पूर्णता: एनयूएलएल को या पूर्व		शुरुआतः अनुबंध के निर्गम से 3 माह के भीतर, पूर्णताः उसके बाद 33 माह के भीतर		
10/08/2023 14:30		21/0	8/2023 14:30		
	<b>संलग्न डीआरजी:</b> डब्ल्यू 01011 एस 52 एएलटी 5		संलग्न डीआरजीः DRG0623.pdf		
			प्रधान	मुख्य सामग्री प्रबंधक	

Follow us on: X twitter.com/GMSRailway

#### **SOUTHERN RAILWAY**

सामग्री प्रबंध विभाग, डीजल लोको शेड, एरोडे-638002 शुद्धिपत्र

स्टोर्स 08/डीएसडी/ईडी/पर्चेज/एड./03, निविदा सं.: 58235347 तय तिथि: 16.8.2023 की आपूर्ति के लिये ई-निविदा सूचना के लिये

-		
	वर्तमान	इस प्रकार पढें:
	हिटाची टीएम टाइप एचएस-	हिटाची टीएम टाइप एचएस-15250ए,
	15250ए, डीआरजी नं.	डीआरजी नं. 10पी.702.107, एएलटी-यू के
	10पी.702.107, एएलटी-यू के	लिये बेयर मैग्नेट फ्रेम तथा आरडीएसओ
	लिये बेयर मैग्नेट फ्रेम	तकनीकी सर्क्युलर नं. आरडीएसओ/
		2022/ईएल/टीसी 0158 (रेव 0) तिथिः
		23.03.2022 के अनुसार।

सहा. सामग्री प्रबंधक/डीजल स्टोर्स डिपो/एरोडे-638002

#### Follow us on : twitter.com/GMSRailway

#### 19.06.2015 के अनसार) दिनांक : 12.08.2023, स्थानः लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

13.07.2015 के अनुसार)

VIKALP SECURITIES LIMITED Regd. Office: 25/38, KARACHI KHANA, KANPUR, UTTAR PRADESH - 208001 CIN - L65993UP1986PLC007727 , Contact No: 0512-2372665

Email id: vikalpsecuritieslimited@gmail.com Website: www.vikalpsecurities.com

**EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS** FOR THE QUARTER ENDED ON 30th JUNE, 2023

					except EPS)
	Particulars	C	Quarter Ended		Year Ended
•		30.06.2023	30.06.2022	31.03.2023	31.03.2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
	Total Income from Operations	0.00	0.00	0.00	0.00
	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	-1.45	-0.19	-0.82	-0.40
	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	-1.45	-0.19	-0.82	-0.40
	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and and / or Extraordinary items)	-1.45	-0.19	-0.82	-0.40
	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income(after Tax)]		-0.38	-0.91	-0.98
	Equity share capital (Face Value of Rs.10/- each)	305.19	305.19	305.19	305.19
	Reserves (Excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance sheet of the Previous year	0.00	0.00	0.00	126.48

Note: The above is an extract of the detailed format of quarter ended unaudited Financial Results of 30th June, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly ended Financial Results of 30th June, 2023 are available on the website of Bombay Stock Exchange Limited <u>www.bseindia.com</u> and on the website of the Company www.vikalpsecurities.com.

For Vikalp Securities Limited

-0.01

(Rs. In Lacs

Arun Kejriwal Date: 11th August, 2023 **Managing Director** DIN: 00687890 Place: Kanpur

#### श्री गंग इंडस्ट्रीज एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड **सीआईएनः** एल01112यूपी1989पीएलसी0110 **पंजीकृत कार्यालय**ः भूखंड सं. बी−2/6 एवं 27, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया,

सांडिला फेज प्ट. सांडिला, जनपद हरदोई (उत्तर प्रदेश) वेबसाइट : www.shrigangindustries.com,

ई—मेलः secretarial@shrigangindustries.com 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

क्र. सं.	विवरण	30.06.2023 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	30.06.2022 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित
1	परिचालनों से कुल आय (निवल)	8170.22	2161.16	13,925.20
2	साधारण गतिविधियों से लाग/(हानि) (कर, आपवादिक तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	979.46	156.01	960.4
3	कर पूर्व लाम/(हानि) (आपवादिक तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	979.46	155.01	960.4
4	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाम/(हानि)	729.45	155.01	1,315.9
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय	729.45	156.01	1,315.3
6	समता अंश पूंजी (रु. 10/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)	1,793.00	793.00	1,793.0
7	आरक्षित (पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)	0.00	0.00	(6.269.30
8	आय प्रति अंश (रु. 10 / — प्रत्येक का अंकित मूल्य) असाधारण मदों से पूर्व तथा इनके उपरांत — तिमाडी हेतु अवार्षिकीकृत — मूलमूत एवं तरलीकृत	4.07	1.95	0.60

 उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा, लेखापरीक्षण सिमित द्वारा की गयी थी तथा तत्पश्चात निदेशक मंडल द्वारा 11 अगस्त 2023 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में इनका अनुमोदन

2. इन वित्तीय परिणामों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 (संशोधितानुसार) (आईएनडी एएस) तथा विस्तारित

प्रयोज्य अन्य मान्यताप्राप्त लेखांकन पद्धतियों एवं नीतियों के अनुसार तैयार किया गया है। कंपनी के पास दो व्यावसायिक खण्डवार हैं – एडिबल ऑयल प्रचालन तथा लिकर प्रचालन और खण्डवार परिणाम, परिसंपितायां व देनदारियां तद्नुसार प्रस्तुत किये गये हैं।

. वर्तमान तिमाही की समयावधि के साथ—साथ वित्तीय वर्ष 2022—23 की पूर्ववर्ती तिमाहियों मे यहां कंपनी की वनस्पति / रिफाइंड ऑयल यूनिट में कोई भी उत्पादन नहीं हुआ था। पूर्ववर्ती अविधयों के आंकड़ों को वर्तमान अविध के अनुरूप तुलनायोग्य बनाने के लिये पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 11-08-2023

बोर्ड के आदेशानुसा कृते श्री गंग इंडस्ट्रीज एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड हस्ता./ सैयद अजीजुर रहमा

# धर्मांतरण कराने के आरोप में चार गिरफ्तार

बहराइच, 11 अगस्त (भाषा)।

बहराइच के मुर्तिहा थाना अंतर्गत हरखापुर गांव में ग्रामीणों को कथित तौर पर प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराने में शामिल होने के आरोपी पिता-पुत्री सहित ईसाई मिशनरी के चार लोगों को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी बहराइच के निवासी हैं। यह जानकारी पुलिस ने दी।

पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने बताया कि गुरुवार को मुर्तिहा पुलिस को सूचना मिली कि हरखापुर गांव में कुछ लोग हिंदू धर्म की महिलाओं और पुरुषों को बहला फसलाकर और धन का प्रलोभन देकर अवैध रूप से ईसाई धर्म स्वीकार कराने का षडयंत्र रच रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हरखापुर गांव निवासी लालसा देवी और उसके पिता समत्, निधिपुरवा निवासी मिठाई लाल और नौबना गांव निवासी जीवन लाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा

ई-रिक्शा से टकराई अनियंत्रित

बस, एक की मौत

*पलिस* अधीक्षक ने बताया कि गुरुवार को मुर्तिहा पुलिस को सूचना मिली कि हरखापुर गांव में कुछ लोग हिंदू धर्म की महिलाओं और पुरुषों को बहला फुसलाकर और धन का प्रलोभन देकर अवैध रूप से ईसाई धर्म स्वीकार कराने का षडयंत्र रच रहे हैं।

147, 295ए, 298, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया है और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि भारत-नेपाल के सीमावर्ती गांवों से धर्मांतरण के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। बीते 10 और 14 जलाई को भारत-नेपाल सीमावर्ती नानपारा व मर्तिहा कोतवाली क्षेत्र में भी पुलिस ने कुल 30 लोगों के खिलाफ अवैध धर्मांतरण के मामले दर्ज करके 15 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था।

### महिला से बलात्कार मामले में प्राथमिकी दर्ज

मुजफ्फरनगर, ११ अगस्त (जनसत्ता)।

पानीपत-खटीमा हाईवे पर गांव पीनना में जफ्फरनगर से शामली जा रही अनियंत्रित बस ने -रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में रिक्शा सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर घायल हैं। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोग ई रिक्शा में सवार हो शहर की तरफ आ रहे थे तो वहीं विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से आ रही है अनियंत्रित बस की चपेट में आ जाने से ई रिक्शा सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जहां डाक्टरों ने एक व्यक्ति अभिषेक पुत्र भीम को मृत घोषित कर दिया।

मोदीनगर, 11 अगस्त ( जनसत्ता)।

भोजपुर गांव में एक युवक द्वारा महिला को उसका अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल करके उसके साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। महिला के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में रपट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोजपुर क्षेत्र के गांव निवासी एक महिला

के ने बताया कि उनके देवर के दोस्त ने चोरी से उनकी अश्लील वीडियो बना ली। उक्त वीडियो के बल पर आरोपी उस पर दोस्ती करने का दबाव बनाने लगा।

## न्यायालय श्रीमान जिला अधिकारी महोदय लखीमपुर खीरी

वाद संख्या -559 / 2023

CANARA BANK LAKHIMPUR KHERI. M/S new hindustaan traders आदी..

1. M/S new hindustaan traders (स्वामी सलीम अहमद) निवासी मोहल्ला हिदायत नगर लखीमपुर जिला खीरी 2. सलीम अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी मोहल्ल हिदायत नगर लखीमपुर

अत्या अत्या 3. रोहित गुप्ता पुत्र राम गोविन्द मिश्राना लखीमपुर जिला खीरी एत्दद्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि केनरा बैंक शाखा लखीमपुर क्

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधोहस्तक्षरी के न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया गया है की आपके द्वारा उक्त बैंक के लिए गए ऋण का मुँगतान अभी तक अदा नहीं किया गया है। अतः आप दिनांक – 12.09.2023 को समय 10.00 बजे दिन में अधोहस्ताक्षरी

के न्यायालय में उपस्थिति होकर कारण स्पष्ट करे कि क्यों न वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पूनर्गठन और प्रतिभूति हित् प्रवर्तन अधिनियम 2002 की घारा –14(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये बैंक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में कथित संपत्ति को कब्जे मे लेकर बैंक को ऋण की अदायगी वसूली के संबंध में दे दी जाये। यदि आप उक्त निर्धारित दिनांक व समय पर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित नहीं होते तो समझा जायेगा कि आपको कुछ नहीं कहना है और तद्नुसार नियमानुसार आदेश पारित कर दिए जिला मजिस्ट्रेट /कलेक्टर

लेखीमपुर खीरी

#### न्यायालय श्रीमान जिला अधिकारी महोदय लखीमपुर खीरी

वाद संख्या -442/2023

CANARABANK LAKHIMPUR KHERI..

उमेश शुक्ला आदि.. प्रतिवादीगण ।. उमेश शुक्ला पुत्र प्रेम सागर मकान संख्या 106 आवास कॉलोनी लखीमपुर

2. प्रतिमा शुक्ला पत्नी उमेश शुक्ला मकान संख्या 106 आवास विकास कॉलोनी लखीमपुर खीरी

एत्दद्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि केनरा बैंक शाखा लखीमपुर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधोहस्तक्षरी के न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करते

हुये अवगत कराया गया है की आपके द्वारा उक्त बैंक के लिए गए ऋण का भूगतान अभी तक अदा नहीं किया गया है। अतः आप दिनांक — 22.08.2023 को समय 10.00 बजे दिन में अघोहस्ताक्षरी

के न्यायालय में उपस्थिति होकर कारण स्पष्ट करे कि क्यों न वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पूनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की घारा -14(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये बैंक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में कथित संपत्ति को कब्जे मे लेकर बैंक को ऋण की अदायगी वसूली के संबंध में दे दी जाये। यदि आप उक्त निर्धारित दिनांक व समय पर अघोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित नहीं होते तो समझा जायेगा कि आपको कुछ नहीं कहना है और तद्नुसार नियमानुसार आदेश पारित कर दिए जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर

#### बिना कागजात दौड़ रहे वाहन का हुआ चालान

शाहजहांपुर, 11 अगस्त (जनसत्ता)।

उत्तर प्रदेश के

परिवहन आयुक्त के निर्देश पर शाहजहांपुर में चलाए जा रहे चेकिंग विशेष अभियान के तहत पीटीओ एच एल वर्मा द्वारा कई गाड़ियों का चालान किया गया।

#### सड़क हादसे में दो की मौत

कुशीनगर ११ अगस्त। कुशीनगर जिले में

गुरुवार की देर रात राम कोला-नौरंगिया मार्ग पर मुख्य पश्चिमी गंडक नहर के दमोदरी पुल के समीप एक कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। कार सवार चार लोगों में से दो की मौत हो गई। एक शख्स लापता है। जबिक एक युवक किसी तरह तैरकर बाहर निकल सका। जिसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राम कोला में चल रहा है।

#### U.P. ASBESTOS LIMITED Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30/06/2023 **Particulars** 30.06.2023 | 30.06.2022 | 31.03.2023 (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 1. Total Income from Operations 6,439 4,068 20,481 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, 185 602 Exceptional and/or Extraordinary items#) 185 206 602 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after 445 Net Profit / (Loss) for the period after tax (afte 162 168 Exceptional and/or Extraordinary items# 438 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /(Loss) for the Period (after Tax) and other Comprehensive Income (after Tax)] 912 912 Paid Up Equity Share Capital 912 7. Reserves (excluding Revaluation Reserve) 5.387 4.948 5,225 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Basic and Diluted \*not annualized

Note: (A) The above results were reviewed by Audit Committee and approved by Board of Directors at their respective meetings held on 11<sup>th</sup> August 2023. **(B)** The above is an extract of the detailed Financial Results for the quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2023, filed with Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (LODR) Guidelines 2015. The full format is available on Company Website <a href="www.upal.in">www.upal.in</a>. (C) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules. (D) Previous year figures have been regrouped/restated where By order of the Board

Place : Lucknow Date: 11.08.2023 **Managing Director**